

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 250#
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- जी20 से संबंधित टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक
250#. श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया:
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) जी20 से संबंधित टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्देश्य क्या है;
- (ख) क्या यह बैठक पहली बार गुजरात में कच्छ के रण में आयोजित की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की उक्त बैठक में अंतरिक्ष में पर्यटन को बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

जी20 से संबंधित टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के संबंध में दिनांक 23.03.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 250# के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

(क) : जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का लक्ष्य विभिन्न पर्यटन संबंधी मुद्दों का समाधान करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है । भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यटन कार्यकारी समूह की प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं :-

- पर्यावरण अनुकूल पर्यटन – एक स्थायी, जिम्मेदार और लोचशील पर्यटन क्षेत्र के लिए पर्यटन क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाना
- डिजिटलीकरण – पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशिता और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना
- कौशल – पर्यटन क्षेत्र में रोजगारों और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करके युवाओं का सशक्तिकरण
- पर्यटन एमएसएमई – पर्यटन क्षेत्र में अभिनवीनता और गतिशीलता लाने के लिए पर्यटन एमएसएमई/स्टार्टप्स/निजी क्षेत्र को सहयोग देना
- गंतव्य प्रबंधन – स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की पूर्ति में सहायक समग्र दृष्टिकोण के साथ गंतव्यों के कार्यनीतिक प्रबंधन पर पुनर्विचार करना ।

(ख) : जी हां, महोदय । पहली बार इस बैठक का आयोजन दिनांक 7-9 फरवरी, 2023 को कच्छ के रण में किया गया था । जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की इस बैठक में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 47 विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था । पर्यटन कार्यकारी समूह के इशू नोट पर विस्तृत चर्चा की गई और परस्पर संबद्ध सभी पांच प्राथमिकताओं अर्थात् पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन को जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया । उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह द्वारा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें एसडीजी 2030 की उपलब्धियों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, एमएसएमई तथा गंतव्य प्रबंधन के पांच प्रमुख आधार स्तंभों के लिए संस्तुत नीतिगत कदम और कार्यनीतियां शामिल होंगी।

(ग) : जी नहीं, महोदय ।
